



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2313]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 8, 2010/कार्तिक 17, 1932

No. 2313]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 8, 2010/KARTIKA 17, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2010

का.आ. 2739(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1094(अ), तारीख 14 मई, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के सिवगंगा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 के 75.200 कि.मी. से 94.000 कि.मी. तक के भू-खण्ड (तिरुचिरापल्ली-कराईकुडी सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचनाओं से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 17 जुलाई, 2010 को “दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस” और “डेली थॉथी” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी को उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 के 75.200 कि.मी. से 94.000 कि.मी. तक (तिरुचिरापल्ली- कराईकुडी सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण /उप मंडल संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिवगंगा	कराईकुडी	(1) संजय	57/2ए भाग	निजी	शुष्क	915	सी पी एल शेखर
				57/2बी भाग	निजी	शुष्क	1749	एम एस एम एम चोकाळिगम चोकाळिगम एंडोमेंट ट्रस्ट
				57/2सी भाग	निजी	शुष्क	2200	के करुप्पाईया
				58 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1778	तमिलनाडु सरकार
				59 भाग	निजी	शुष्क	593	एम एस एम एम चोकाळिगम चोकाळिगम एंडोमेंट ट्रस्ट
				62 भाग	निजी	शुष्क	2969	एस सरस्वथीयाम्माल
				64/1 भाग	निजी	शुष्क	1633	आर रामानाथन चेट्टीयार
				64/2ए भाग	निजी	शुष्क	1000	1. एस मेयाप्पान, 2. एस चेल्लामुथु, 3. एन अलगप्पान, 4. आर मेयाप्पान
				64/2बी भाग	निजी	शुष्क	227	अध्यक्ष शानगारापुरम पंचायत
				64/3 भाग	निजी	शुष्क	4550	एन सथाप्पा चेट्टीयार
				64/4 भाग	सरकारी	पोरमबोक	2350	तमिलनाडु सरकार
				64/5 भाग	निजी	शुष्क	528	एस एन विजयाराघवन
				66/1 भाग	निजी	शुष्क	9625	श्री सनेहवल्ली टक्सटाईल प्रा लिमिटीड
				71 भाग	सरकारी	पोरमबोक	2064	तमिलनाडु सरकार
			(2) कोविलूर	30/3के भाग	निजी	शुष्क	88	एस बोस
				30/3एल भाग	निजी	शुष्क	604	एस बोस
				30/3एम भाग	निजी	शुष्क	647	एस बोस
				30/3एन भाग	निजी	शुष्क	756	एस बोस
				30/3 ओ भाग	निजी	शुष्क	9377	1. टी मुथु , 2. के जुलैई
				30/3पी भाग	निजी	शुष्क	3545	ए.काशी अबालाम् 1, ए.पाजानी अबालाम 2,
				31/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	7967	तमिलनाडु सरकार
				31/2बी3 भाग	निजी	शुष्क	1589	देवीनाथान
				31/3ए भाग	निजी	शुष्क	3636	देवीनाथान
				31/3बी भाग	निजी	शुष्क	1376	सी.वाई.रावान.
				31/3सी भाग	निजी	शुष्क	98	के रामायी अमाल.
				51/1बी भाग	निजी	शुष्क	1	सी पादमानाबान.
				51/3 भाग	निजी	शुष्क	834	आर चोकलिनगाम
				51/4 भाग	निजी	शुष्क	5017	के.मालिङकानाम
				51/5,	निजी	शुष्क	1300	आर चोकलिनगाम
				51/6ए भाग	निजी	शुष्क	1662	एस.पाजहनीवेलू
			(3) कराईकुडी	1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	31700	तमिलनाडु सरकार
				12 भाग	सरकारी	पोरमबोक	25000	तमिलनाडु सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				17/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	2200	तमिलनाडु सरकार
				17/4	निजी	शुष्क	300	पी, मेयाअपान अमबालाम.
				17/5 भाग	सरकारी	पोरमबोक	4000	तमिलनाडु सरकार
				19/18 भाग	निजी	शुष्क	200	पी, चेलाममाल.
				19/19 भाग	निजी	शुष्क	200	एम.सीनिवासाकोनार.
				19/20 भाग	निजी	शुष्क	250	के. कानाअप्पा कोनार.
				19/22 भाग	निजी	शुष्क	450	के. कानाअप्पा कोनार.
				19/23 भाग	निजी	शुष्क	450	सी पेरीयाकारुअपान अमबालाम.
				20/1 भाग	निजी	शुष्क	550	सी रामालिनगाम.
				20/2 भाग	निजी	शुष्क	400	सी सुब्रामण्यम
				20/3 भाग	सरकारी	पोरमबोक	61	तमिलनाडु सरकार
				20/4 भाग	निजी	शुष्क	2460	आर गोविन्दासामी.
				20/5 भाग	निजी	शुष्क	1250	सी पेरीयाकारुअपान अमबालाम.
				20/6ए	निजी	शुष्क	150	सी, सुब्रामनियाम् 1, आर गोविन्दासामी, 2
				20/6बी	निजी	शुष्क	150	सी रामालिनगाम.
				20/7ए	निजी	शुष्क	100	पी, पेरीयाअपान,
				20/7बी	निजी	शुष्क	100	के. कानाअप्पा कोनार.
				20/8 भाग	निजी	शुष्क	100	पी चेलाममाल,
				20/9 भाग	निजी	शुष्क	30	पी चेलाममाल,
				20/11 भाग	निजी	शुष्क	50	एम.सीनिवासाकोनार.
				20/12 भाग	सरकारी	पोरमबोक	5100	तमिलनाडु सरकार
				21/10 भाग	निजी	शुष्क	200	सी.अजहागाअपान.
				24 भाग	सरकारी	पोरमबोक	40600	तमिलनाडु सरकार
				31 भाग	सरकारी	पोरमबोक	2500	तमिलनाडु सरकार
				32 भाग	सरकारी	पोरमबोक	3400	तमिलनाडु सरकार
				39/1 भाग	निजी	नम	200	सी.अजहागाअपान.
				39/4ए भाग	निजी	नम	50	एस.पानचानाथान अमबालाम.
				40/1	सरकारी	पोरमबोक	2100	तमिलनाडु सरकार
				40/2 भाग	निजी	नम	80	पी.सीनिवासन.
				40/3 भाग	निजी	नम	50	1.पी नाचाल, 2. राजा कुमारी
				40/4 भाग	निजी	नम	5	एम मेयाप्पान अमबालाम
				40/7ए भाग	निजी	नम	200	एस राजेन्द्रन
				40/7बी भाग	निजी	नम	50	एस रामाकृष्णन
				40/8	निजी	नम	200	पी श्रीनिवासन
				40/9 भाग	निजी	नम	100	पी मरीयाप्पान
				40/10 भाग	निजी	नम	100	सी अलगाप्पान
				40/11 भाग	निजी	नम	100	पी मेयार
				40/12 भाग	निजी	नम	100	आर सोमासुन्दरम
				40/13 भाग	निजी	नम	500	सी पेरीयाकारुअपान अमबालाम.
				40/14 भाग	निजी	नम	300	सी पेरीयाकारुअपान अमबालाम.
				40/15 भाग	निजी	नम	200	सी पेरीयाकारुअपान अमबालाम.
				40/16ए भाग	निजी	नम	200	पी मेय्याप्पान अमबालाम
				40/16बी भाग	निजी	नम	100	पी धनाबहागयाम
				41/23ए भाग	निजी	नम	10	एस श्रीनिवासन
				41/23बी भाग	निजी	नम	20	एस श्रीनिवासन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				41/24 भाग	निजी	नम	50	एम श्रीनिवासाक्कोनार
				41/25 भाग	निजी	नम	100	पी मेरीयाप्पान
				209/6 भाग	निजी	शुष्क	800	1. सी मेयाप्पान, 2. सी वेल्लामेयान, 3. सी करुप्पाईया
				209/27 भाग	सरकारी	शुष्क	900	तमिलनाडु सरकार
				210/21 भाग	निजी	शुष्क	40	के चिदम्ब्रम
				210/23 भाग	निजी	शुष्क	700	ए पेरीयाकरुप्पान
				210/24 भाग	निजी	शुष्क	390	एम वेल्लाईचामी
				210/26 भाग	निजी	शुष्क	385	एम मेय्यार
				210/28 भाग	निजी	शुष्क	300	सी पेरीयाकरुप्पान
				212/3 भाग	निजी	शुष्क	880	पी एम मेयार
				212/4 भाग	निजी	शुष्क	575	के चिन्नाईया
				212/5 भाग	निजी	शुष्क	610	पी एम मेयार
				212/8 भाग	निजी	शुष्क	150	ए अधियान
				214/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1900	तमिलनाडु सरकार
				214/2 भाग	निजी	शुष्क	900	सी वेल्लाईचामी
				217/1	सरकारी	पोरमबोक	550	तमिलनाडु सरकार
				217/2 भाग	निजी	शुष्क	180	पी पेरीयाकरुप्पान
				217/3 भाग	निजी	शुष्क	475	के अधियान
				217/8 सी	निजी	शुष्क	278	के अरुम्मुगम
				217/8 डी भाग	निजी	शुष्क	200	के सुब्बाईया
				217/15 भाग	निजी	शुष्क	300	1. टी थिरुमेनी, 2. टी रामन, 3. टी सुब्बाईया
				217/16 भाग	सरकारी	पोरमबोक	50	तमिलनाडु सरकार
		(4) मनगिरि सुक्कानन्दल		93/1 ए भाग	निजी	शुष्क	2030	1. ए चेल्लाम, 2. ए चिन्नाईया, 3. एस सवारीमुथु उदीयार, 4. पी अम्माक्कानु, 5. बी यागाप्पर उदीयार, 6. आर सेबाती उदीयार, 7. एस विनाईथीथान
				93/1 बी भाग	निजी	शुष्क	7935	आर रामासुब्रामणियन ए रामासुब्रामणियन
				93/1 सी भाग	निजी	शुष्क	1500	1. एम अरुणतल्लम, 2. सी राजेश्वरी
				93/4 भाग	सरकारी	पोरमबोक	18600	तमिलनाडु सरकार
				99/1 डी भाग	निजी	शुष्क	470	एस मुथुलागु
				100/1 ए1 ए भाग	निजी	शुष्क	8380	1. सी पजानी अम्बालम, 2. चाकानामबालम, 3. विशालतची 4. वी पोसाली
				100/2 ए1 भाग	निजी	शुष्क	160	टी भागयालीला
				100/17,	निजी	शुष्क	260	ए पेरीयानान
				100/20 भाग	निजी	शुष्क	100	एस माईकल अम्माल
				100/36 भाग	निजी	शुष्क	65	एल अंजालामेरी
				101/1 भाग	निजी	शुष्क	410	एन चेल्लामल
				101/2 भाग	निजी	शुष्क	40	टी रामानाथन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				101/12 भाग	निजी	शुष्क	3520	आर रामासामी चेट्टीयार
				101/13 भाग	निजी	शुष्क	200	आर रामासामी चेट्टीयार
				101/14 भाग	निजी	शुष्क	80	एम धन्नाम्माई
				101/15,	निजी	शुष्क	200	पी पाजानीयाप्पान
				101/16,	निजी	शुष्क	200	एल पुष्पावल्ली
				101/17,	निजी	शुष्क	200	आर रामासामी चेट्टीयार
				101/18,	निजी	शुष्क	200	के अमुथावल्ली
				101/19,	निजी	शुष्क	200	एस मुथुरानी
				101/20,	निजी	शुष्क	400	यु शानमुगमनाथन
				101/21,	निजी	शुष्क	200	एस अम्बीगाई
				101/22,	निजी	शुष्क	200	जी कमलाम्माल
				101/35 भाग	निजी	शुष्क	20	पी शिवाकामी
				101/36 भाग	निजी	शुष्क	160	पी उन्नापाजानीयाप्पान
				101/37,	निजी	शुष्क	200	के वदीवेल
				101/38,	निजी	शुष्क	200	आर थीवनाई अचारी
				101/39,	निजी	शुष्क	200	माईनर वीराप्पान गर्डियन वी आर सुब्रामणियन
				101/40 भाग	निजी	शुष्क	185	एस सुब्रामणियन
				101/41 भाग	निजी	शुष्क	80	एस कर्तिरेशन
				101/46 भाग	निजी	शुष्क	200	आर रामासामी चेट्टीयार
				101/47,	निजी	शुष्क	200	वी मुथुथाल
				101/48 भाग	निजी	शुष्क	10	टी उन्नामलाई
				101/49,	निजी	शुष्क	200	ए सोलाईयाप्पा चेट्टीयार
				101/50,	निजी	शुष्क	400	एल चिथामबाराम
				101/51,	निजी	शुष्क	200	वी नाकल
				101/52,	निजी	शुष्क	200	ए वीराप्पान
				101/53,	निजी	शुष्क	200	एन चोकाळिगम
				101/54,	निजी	शुष्क	200	आर उन्नामलाई
				101/55,	निजी	शुष्क	200	एम राधाकृष्णन
				101/56,	निजी	शुष्क	200	एन माईनर वीराप्पान
				101/57,	निजी	शुष्क	200	एम वल्लीयाम्माई
				101/58 भाग	निजी	शुष्क	110	के कालीमुथु
				101/60 भाग	निजी	शुष्क	170	एन रामालक्ष्मी अलीस राधा
				101/61 भाग	निजी	शुष्क	55	सी कौशल्या माईनर नटराजन गर्डियन
				101/68 भाग	निजी	शुष्क	75	आर रामासामी चेट्टीयार
				101/70 भाग	निजी	शुष्क	10	सी.कुमारअप्पान.
				101/71 भाग	निजी	शुष्क	180	सी.वीरामाल.
				101/72,	निजी	शुष्क	200	आर थाननीमालाई
				101/73,	निजी	शुष्क	200	आर.चितामबाराम.
				101/74 भाग	निजी	शुष्क	145	के कुमारप्पान
				101/75,	निजी	शुष्क	200	के.अजगाप्पान
				101/76,	निजी	शुष्क	200	वी सुब्रामनियाम.
				101/77,	निजी	शुष्क	200	ए.विसालानची.
				101/78 भाग	निजी	शुष्क	1480	आर रामासामी चेट्टीयार
				101/84/ए1 भाग	निजी	शुष्क	420	आर रामासामी चेट्टीयार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				101/84/ए2	निजी	शुष्क	460	आर.रविचानदरान 1, आर.शानमूगावाली 2,
				101/84/ए3	निजी	शुष्क	230	आर रामासामी चेट्टीयार
				103/1 भाग	निजी	शुष्क	25	1. एस विनाथीराथन, 2. पिचामुथु, 3. मेरीयारासु
				105/1ए1 भाग	निजी	शुष्क	1200	आर अलागीयाम्माल
				105/1बी,	निजी	शुष्क	440	एम पोन्नालागी अम्माल
				105/1सी,	निजी	शुष्क	200	एस रामाईया
				105/1डी,	निजी	शुष्क	200	एस रामाईया
				105/1ई,	निजी	शुष्क	435	एएल मीनाश्रीसुन्दम
				105/1एफ भाग	निजी	शुष्क	20	एम सोमावल्ली
				105/3बी1 भाग	निजी	शुष्क	1036	एस मुथु
				105/3बी2,	निजी	शुष्क	200	एस जोन बापतीसत
				105/5 भाग	निजी	शुष्क	390	एम जोसफ राज
				105/8,	निजी	शुष्क	200	एस वाजीरा
				135/7 भाग	निजी	शुष्क	70	1.एम वीराईया पिल्लै, 2.एल शिवनाथ पेरुमल 3.शिवकामी, 4.माला
				135/8 भाग	निजी	शुष्क	200	आर चिदम्बम
				135/11 भाग	निजी	शुष्क	275	आर चिदम्बम
				135/12 भाग	निजी	शुष्क	400	बी माधवन
				135/13 भाग	निजी	शुष्क	450	ए पेरुमल
				135/14 भाग	सरकारी	पोरमबोक	150	तमिलनाडु सरकार
				186/2,	सरकारी	पोरमबोक	1200	तमिलनाडु सरकार
				186/25 भाग	निजी	शुष्क	1225	पी के पनीर सेलवम
				186/26,	निजी	शुष्क	2000	पी मेय्याप्पाकोन
				186/27,	निजी	शुष्क	2500	एम अलगाप्पान
				186/28 भाग	निजी	शुष्क	100	के रामाकोन्नार
				297/3 भाग	निजी	शुष्क	50	आर अर्जुन
				297/4 भाग	निजी	शुष्क	1080	आर अर्जुन
				297/5 भाग	निजी	शुष्क	650	वी वीराबाथीराक्कोन
				297/6 भाग	निजी	शुष्क	3150	वी वीराबाथीराक्कोन
				297/7 भाग	निजी	शुष्क	1750	आर अर्जुन
				324/2 भाग	निजी	शुष्क	880	ए पोसालन
				324/3 भाग	निजी	शुष्क	1760	वी शिवसामी
				324/6 भाग	निजी	शुष्क	2420	सी कांगालक्ष्मी
				324/7 भाग	निजी	शुष्क	2650	आर वेल्लाईम्माई
				324/9 भाग	निजी	शुष्क	100	आर गाजालक्ष्मी
				324/10 भाग	निजी	शुष्क	2600	आर वेल्लायाम्माई
				326/11सी भाग	निजी	शुष्क	10	एस मोहम्मद दास
				326/11ए1 भाग	निजी	शुष्क	300	डी जयरामन
				327/2 भाग	निजी	शुष्क	3700	टी वीरावी
				327/3 भाग	सरकारी	पोरमबोक	700	तमिलनाडु सरकार
				327/4 भाग	निजी	शुष्क	1130	ए करुप्पायी अम्माल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				327/5 भाग	निजी	शुष्क	3900	आर धानाम
				327/6 भाग	निजी	शुष्क	1830	ए अलागाप्पान
				327/7 भाग	निजी	शुष्क	520	एम मुथाम्माल
				327/13 भाग	निजी	शुष्क	110	ए अलागाप्पान
				328/1 भाग	निजी	शुष्क	1400	एम मुथाम्माल
				328/2 भाग	निजी	शुष्क	890	के अथाम्माई
				328/3 भाग	निजी	शुष्क	50	शानथाबाई
				330/1 भाग	निजी	शुष्क	565	वी मुथुलक्ष्मी
				333/1ए1,	निजी	शुष्क	300	1.एस अहम्मद माजोद 2. एस अबदुल मलिक
				333/1ए2 भाग	निजी	शुष्क	1470	एस मोहन सेरवाई
				333/1बी,	निजी	शुष्क	300	ए अन्नादुराई
				333/1सी भाग	निजी	शुष्क	700	के काला
				333/2ए,	निजी	शुष्क	350	वी जयमनी
				333/2बी1 भाग	निजी	शुष्क	1550	एस मोहन
				333/3 भाग	निजी	शुष्क	150	ए सरस्वती
				333/6 भाग	निजी	शुष्क	125	ए उमाईयाल
				333/12,	निजी	शुष्क	200	जी रोजा
				334/1 भाग	निजी	शुष्क	100	एस सुब्रामणियन
				334/2 भाग	निजी	शुष्क	2970	एम सुब्रामणियन
				334/3 भाग	निजी	शुष्क	1820	एस सेवुगान चेट्टीयार
				334/4 भाग	निजी	शुष्क	900	एस सेवुगान चेट्टीयार
				334/5 भाग	निजी	शुष्क	1940	एस सेवुगान चेट्टीयार
				334/6 भाग	निजी	शुष्क	885	सी रामालिंगम चेट्टीयार
				334/7 भाग	निजी	शुष्क	125	सी रामालिंगम चेट्टीयार
				334/8ए1 भाग	निजी	शुष्क	500	एस मुनीयासामी नायडु
				334/8ए2 भाग	निजी	शुष्क	280	ए कुलांथाई तेरासे
				334/8ए3,	निजी	शुष्क	400	एस इलीजाबेथ रानी
				334/8ए4,	निजी	शुष्क	200	ए रोजमेरी
				334/8ई भाग	निजी	शुष्क	480	एस रविचन्द्रन
				334/8सी2 भाग	निजी	शुष्क	10	ज्जी चेल्लाम
				334/8डी1,	निजी	शुष्क	200	एम पाडियन
				334/8डी2,	निजी	शुष्क	200	आर जयाम
				334/8डी3,	निजी	शुष्क	400	एस रविचन्द्रन
				334/9ए1 भाग	निजी	शुष्क	640	एस मुनीयासामी नायडु
				334/9ए2 भाग	निजी	शुष्क	970	एस शिवकान्दर
				334/9बी भाग	निजी	शुष्क	160	आर थिरुनाउककारासु
				334/9सी1 भाग	निजी	शुष्क	160	आर थिरुनाउककारासु
				334/9सी2,	निजी	शुष्क	200	पी अरुमुगमाम्माल
				334/9डी1 भाग	निजी	शुष्क	230	आर थिरुनाउककारासु
				334/9डी2,	निजी	शुष्क	200	पी अरुमुगमाम्माल
				334/9डी3,	निजी	शुष्क	200	आर थिरुनाउककारासु
				335/6 भाग	निजी	शुष्क	520	करुप्पाईया
				335/7 भाग	निजी	शुष्क	1850	ए करुप्पाईया
				335/10 भाग	निजी	शुष्क	2700	बी कृष्णन
				336/ 1 भाग	निजी	शुष्क	1830	टी माधीयाजागन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				336/2 भाग	निजी	शुष्क	2300	टी माधीयाजागन
				336/3 भाग	निजी	शुष्क	2700	एस शेख अबदुल्लाह
				336/4 भाग	निजी	शुष्क	150	टी सेलवाकुमार
				336/5 भाग	निजी	शुष्क	3200	टी सेलवाकुमार
				336/6ए भाग	निजी	शुष्क	430	ए जहीर
				337/8 भाग	निजी	शुष्क	130	1. कालीयाम्माल, 2. थिल्लुईयाम्माल
				337/9 भाग	निजी	शुष्क	2700	आर शान्थाबाई
				338/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1130	तमिलनाडु सरकार
				338/2 भाग	निजी	शुष्क	1290	एम उधईयाम्माल
				338/3 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1815	तमिलनाडु सरकार
				350/10 भाग	निजी	शुष्क	20	एस जफर फातिमा
				351/2 भाग	निजी	शुष्क	550	बी सिधि बरजिथा
				351/3 भाग	निजी	शुष्क	1120	वी शिवासामी
				351/6ए3,	निजी	शुष्क	200	एम सेलवम
				351/6ए4 भाग	निजी	शुष्क	800	एस मोहन सरवाई
				351/6बी,	निजी	शुष्क	250	वी जयमनी
				351/6सी भाग	निजी	शुष्क	260	आर सकुन्तला
				351/7ए1 भाग	निजी	शुष्क	2100	एस मोहन सरवाई
				351/7ए2 भाग	निजी	शुष्क	155	1. नवनीताकृष्णन, 2. जयलक्ष्मी
				351/10 भाग	निजी	शुष्क	2720	आर अर्जुन
				351/12 भाग	निजी	शुष्क	145	एन कुलाथई वेलु
			(5)नुरपुगाप्पट्टी	86/4 भाग	निजी	शुष्क	10	एन सुब्बाईया
				86/5 भाग	निजी	शुष्क	250	एस सोमामुथु अम्माल
				86/6 भाग	सरकारी	पोरमबोक	70	तमिलनाडु सरकार
				86/10 भाग	निजी	शुष्क	450	एस सोमामुथु अम्माल
				88/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	510	तमिलनाडु सरकार
				88/2ए भाग	निजी	शुष्क	5150	एस एम भागयाराज
				88/2बी भाग	निजी	शुष्क	2950	एस एम भागयाराज
				90/1 भाग	निजी	शुष्क	1100	एम गनाना शानमुगाम पिल्लै
				90/2 भाग	सरकारी	पोरमबोक	330	तमिलनाडु सरकार
				90/3 भाग	निजी	शुष्क	1800	जी मेरीमुथु
				93/15 भाग	निजी	शुष्क	130	सी अजहगी
				93/22ए भाग	निजी	शुष्क	60	सी अजहगी
				93/22बी भाग	निजी	शुष्क	640	पी करुपाईया
				94/7बी भाग	निजी	शुष्क	40	वी नाचियाप्पान
				94/7सी,	निजी	शुष्क	100	वी कासी सरवाई
				94/9बी भाग	निजी	शुष्क	20	सी अरुमुगम
				94/9सी	निजी	शुष्क	50	सी मुथुसरवाई
				94/10 भाग	निजी	शुष्क	160	के मेरीमुथु
				94/11 भाग	सरकारी	नाथम	40	तमिलनाडु सरकार
				95/18 भाग	निजी	शुष्क	950	एन सुब्बाईया चेट्टीयार
				106 भाग	सरकारी	पोरमबोक	5950	तमिलनाडु सरकार
				150/2 भाग	निजी	शुष्क	90	के परमासामी
				151/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1100	तमिलनाडु सरकार
				152/3 भाग	निजी	नम	770	ए सिगाप्पी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				161/1 भाग	निजी	नम	1020	पी पादीकासु
				161/2 भाग	निजी	शुष्क	3560	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				161/3 भाग	निजी	शुष्क	430	पी पादीकासु
				164 भाग	सरकारी	पोरमबोक	3950	तमिलनाडु सरकार
				166/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	2000	तमिलनाडु सरकार
				167 भाग	सरकारी	पोरमबोक	620	तमिलनाडु सरकार
				270/2 भाग	निजी	नम	80	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				270/3 भाग	निजी	नम	20	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				270/4,	निजी	नम	550	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				270/5 भाग	निजी	नम	680	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				270/6,	निजी	नम	300	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				270/7,	निजी	नम	300	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				270/8,	निजी	नम	300	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				270/9,	निजी	नम	300	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				270/10 भाग	निजी	नम	300	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				270/12 भाग	निजी	नम	190	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				270/13,	निजी	नम	800	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				270/14,	निजी	नम	250	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				270/15,	निजी	नम	300	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				270/16,	निजी	नम	600	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				270/17 भाग	निजी	नम	100	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				270/19 भाग	निजी	नम	560	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				270/20,	निजी	नम	300	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				271/1 भाग	सरकारी	नाथम	170	तमिलनाडु सरकार
				271/2 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1200	तमिलनाडु सरकार
				271/15 भाग	निजी	नाथम	200	पी सोलाईयाम्माल
				271/16,	निजी	नाथम	300	सी मुथु सेरवाई
				271/17 भाग	निजी	नाथम	120	रामाचन्द्रा वाकायारा पुष्पुथी पाथवाई
				271/22 भाग	निजी	नाथम	50	पी वेलायी
				271/23 भाग	निजी	नाथम	180	एम करुप्पीया
				271/24,	निजी	नाथम	380	आर वेल्लाईसामी
				271/25,	निजी	नाथम	220	सी श्रीनिवासन
				271/26,	निजी	नाथम	120	सी लक्ष्मी
				272/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	80	तमिलनाडु सरकार
				272/2 भाग	निजी	शुष्क	250	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				272/3 भाग	निजी	शुष्क	260	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				272/7 भाग	निजी	नम	320	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				272/9 भाग	निजी	नम	20	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				272/10,	निजी	नम	200	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				272/11,	निजी	नम	200	1.अरुलमीगु पोवांदीपट्टी 2.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3.देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				273/17,	निजी	नम	200	1. अरुलमीगु पोवादीपट्टी 2. देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3. देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				273/18,	निजी	नम	150	1. अरुलमीगु पोवादीपट्टी 2. देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3. देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				273/19 भाग	निजी	नम	30	1. अरुलमीगु पोवादीपट्टी 2. देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3. देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				273/32 भाग	निजी	नम	500	1. अरुलमीगु पोवादीपट्टी 2. देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3. देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				273/34 भाग	निजी	नम	250	1. अरुलमीगु पोवादीपट्टी 2. देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3. देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				273/35 भाग	निजी	नम	230	1. अरुलमीगु पोवादीपट्टी 2. देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर 3. देसीगांधार ठारकाला नुमबाकेर
				276 भाग	सरकारी	पोरमबोक	4380	तमिलनाडु सरकार
				344/22 भाग	सरकारी	नाथम	150	तमिलनाडु सरकार
				344/23 भाग	सरकारी	पोरमबोक	25	तमिलनाडु सरकार
				344/24 भाग	सरकारी	पोरमबोक	80	तमिलनाडु सरकार
				345/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	40	तमिलनाडु सरकार
				345/17 भाग	सरकारी	नाथम	200	तमिलनाडु सरकार
				369/9 भाग	सरकारी	पोरमबोक	30	तमिलनाडु सरकार
				369/12 भाग	सरकारी	नाथम	54	तमिलनाडु सरकार
				369/13,	सरकारी	नाथम	500	तमिलनाडु सरकार
			(6) कनाडुकथान	310/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	6500	तमिलनाडु सरकार
				323/22 भाग	निजी	नम	318	आर चितम्बम
				323/23 भाग	निजी	नम	301	पी सोलाई अलगार
				323/24 भाग	निजी	नम	171	के सोलाईमलाई
				323/29 भाग	निजी	नम	199	पी सोलाई अलगार
				323/30,	सरकारी	पोरमबोक	300	तमिलनाडु सरकार
				323/31 भाग	निजी	नम	276	पी सोलाईमलाई
				324/4 भाग	निजी	नम	135	पी सोलाईमलाई
				324/5 भाग	निजी	नम	213	के सोलाईमलाई
				324/16 भाग	निजी	नम	348	पी सोलाईमलाई
				324/17 भाग	निजी	नम	572	आर चितम्बम
				324/18	सरकारी	पोरमबोक	300	तमिलनाडु सरकार
				329/6ए भाग	निजी	नम	996	आर सत्ताप्पान
				329/6बी	निजी	नम	610	1. आर मुथालागु 2. एम बालासुब्रामणियन, 3. एम सत्ताप्पान
				329/20 भाग	निजी	नम	54	आर सोलाईमलाई
				329/21 भाग	निजी	नम	17	एम रामासामी चेट्टीयार
				329/22	निजी	नम	500	एम पेरीयाकरुप्पान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				329/23ए	निजी	नम	200	आर सोलाईयन
				329/23बी	निजी	नम	150	चिदमब्रम
				330 भाग	सरकारी	पोरमबोक	4300	तमिलनाडु सरकार
				331/10 भाग	निजी	नम	94	एस रामासामी
				331/11ए	निजी	नम	350	पी गणपति अमबालम
				331/11बी	निजी	नम	450	पी गणपति अमबालम
				331/12ए	निजी	नम	450	आर चिदमब्रम
				331/12बी	निजी	नम	450	आर सोलाईयन
				331/13 भाग	निजी	नम	50	के वैशालतची
				331/14 भाग	निजी	नम	150	1.सी सोमन, 2. सी रामासामी
				331/19 भाग	निजी	नम	4700	एम ए एम रामासामी चेट्टीयार
				343/1 भाग	निजी	नम	5425	एम ए एम रामासामी चेट्टीयार
				343/2बी भाग	निजी	नम	696	एन नेल्लायन
				343/2सी,	निजी	नम	500	ए रामासामी
				343/3,	निजी	नम	350	1.एस कासी, 2.एस वैकटाचलम
				343/4,	निजी	नम	150	बी वैशालतची
				343/5,	निजी	नम	150	बी वैशालतची
				343/6 भाग	निजी	नम	125	आर पेरीयाकरुप्पान
				343/8बी भाग	निजी	नम	95	एल पाजानीयाप्पान
				343/9,	निजी	नम	350	के वल्लीयाम्माई
				343/10ए भाग	निजी	नम	217	1.एस कासी, 2.एस वैकटाचलम
				343/10बी भाग	निजी	नम	599	एस वैकटाचलम
				343/11 भाग	निजी	नम	260	एन कासी
				343/12सी भाग	निजी	नम	132	एन नेल्लायन
				343/12डी	निजी	नम	300	एन कासी
				343/12ई	निजी	नम	450	एन नेल्लायन
				343/12एफ	निजी	नम	300	एन नेल्लायन
				343/12जी भाग	निजी	नम	251	एन कासी
				343/12एच भाग	निजी	नम	303	एन नेल्लायन
				343/12आई भाग	निजी	नम	1063	एन कासी
				343/13,	निजी	नम	375	एम कालीमुथान
				343/14 भाग	निजी	नम	507	एन कासी
				343/15,	निजी	नम	637	एस रामु
				345 भाग	निजी	नम	7100	1.एम वल्लीकान्नु, 2.अलागुरामाकृष्णन
				346 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1100	तमिलनाडु सरकार
				347 भाग	सरकारी	पोरमबोक	12300	तमिलनाडु सरकार
				348 भाग	सरकारी	पोरमबोक	8000	तमिलनाडु सरकार
				356/46 भाग	निजी	शुष्क	1650	के गुनाशेखरन
				356/47 भाग	निजी	शुष्क	1002	ए चोकातिगम
				356/48 भाग	निजी	शुष्क	144	ए सुबाईया
				356/49 भाग	निजी	शुष्क	144	एम मुरुगन
				356/52 भाग	निजी	शुष्क	1162	ए अदीक्कान
				356/53 भाग	निजी	शुष्क	1306	ए कान्नान
				356/56 भाग	निजी	शुष्क	7000	एम वैथायातिगम
				356/57 भाग	निजी	शुष्क	800	सी वल्लीयाम्माई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				356/59,	निजी	शुष्क	1850	सी शानमुगासुन्दम
				356/62 भाग	निजी	शुष्क	500	आर थेन्नाप्पान
				356/64 भाग	निजी	शुष्क	2800	आर वसन्थाल
				356/65 भाग	निजी	शुष्क	3150	वी चेल्लाम्माल
				356/67 भाग	निजी	शुष्क	500	एम लक्ष्मी
				360 भाग	निजी	शुष्क	1100	एम पी सीटीके चोकार्लिंगम चेट्टीयार
				361 भाग	निजी	शुष्क	830	एम पी सीटीके चोकार्लिंगम चेट्टीयार
				363/1 भाग	निजी	शुष्क	383	एस राजागोपाल
				363/2 भाग	निजी	शुष्क	837	एस राजागोपाल
				363/3,	निजी	शुष्क	850	एस राजागोपाल
				363/4 भाग	निजी	शुष्क	1433	एस दुराई
				363/5 भाग	निजी	शुष्क	1252	एस सुब्रामणियन
				366/1 भाग	निजी	शुष्क	3850	जी कर्तिकेयन
				367/1 भाग	निजी	शुष्क	2500	एम रामासामी चेट्टीयार
				513/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1930	तमिलनाडु सरकार
				528/1 भाग	सरकारी	नाथम	358	तमिलनाडु सरकार
				528/2 भाग	निजी	नाथम	5	आर मीनाक्षी
				528/3 भाग	सरकारी	नाथम	320	तमिलनाडु सरकार
				528/4 भाग	निजी	नाथम	56	आर थानीरमलाई
				528/5 भाग	निजी	नाथम	119	आर चिदम्ब्रम
				533/8 भाग	सरकारी	नाथम	350	तमिलनाडु सरकार
				534/1 भाग	सरकारी	नाथम	79	तमिलनाडु सरकार
				534/2,	निजी	नाथम	251	के अरुमुगम
				534/3 भाग	निजी	नाथम	190	एन अजागन
				534/4 भाग	सरकारी	नाथम	175	तमिलनाडु सरकार
				534/6 भाग	निजी	नाथम	53	के वीरार्
				534/13 भाग	निजी	नाथम	386	सी अलगाम्माई आची
				534/14 भाग	निजी	नाथम	460	पी कासी विश्वनाथा चेट्टीयार
				534/16,	निजी	नाथम	675	1. पी चेल्लाप्पा चेट्टीयार, 2. वैकटाचलम चेट्टीयार, 3. पी सुब्रामणियन
				534/18 भाग	निजी	नाथम	185	सी मुथुकुमार चेट्टीयार
				534/19 भाग	निजी	नाथम	72	सी अलगाम्माई चेट्टीयार
				534/24 भाग	निजी	नाथम	336	एम वैकाटेश
				534/25,	निजी	नाथम	370	एम रविचन्द्रन मेयाप्पान
				534/26 भाग	निजी	नाथम	330	एम कान्ना पजानीयाप्पान
				534/28 भाग	निजी	नाथम	9	एम उदीयाप्पान
				546/2 भाग	निजी	नाथम	210	एस लक्ष्मीयाम्माल
				546/3,	निजी	नाथम	148	आर रामासामी
				546/4,	निजी	नाथम	260	ए अंदीयाप्पान
			(7) कलानिवासल	69 भाग	सरकारी	पोरमबोक	10962	तमिलनाडु सरकार
				70/1 भाग	निजी	शुष्क	1034	आर वसन्ता
				85/1ए भाग	निजी	शुष्क	5000	सी पांडियाराजन
				85/1बी भाग	निजी	शुष्क	100	सी पांडियाराजन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				116 भाग	सरकारी	पोरमबोक	21138	तमिलनाडु सरकार
				124/2 भाग	निजी	शुष्क	2960	के पनीर सेलवम
				124/3ए	सरकारी	शुष्क	500	तमिलनाडु सरकार
				124/3बी	निजी	शुष्क	300	1. सी काट्टायन, 2. वी पिचाई
				124/4	सरकारी	शुष्क	150	तमिलनाडु सरकार
				124/5 भाग	सरकारी	पोरमबोक	2086	तमिलनाडु सरकार
				124/6 भाग	निजी	शुष्क	162	के पनीर सेलवम
				125/1 भाग	सरकारी	शुष्क	220	तमिलनाडु सरकार
				125/3 भाग	सरकारी	शुष्क	2100	तमिलनाडु सरकार
				125/4 भाग	सरकारी	शुष्क	150	तमिलनाडु सरकार
				126/1सी भाग	निजी	शुष्क	552	पी रवि
				126/1डी भाग	निजी	शुष्क	3627	पी पाडियन
				126/1ई भाग	निजी	शुष्क	5520	पी नामबिसुब्रामणियन
				126/1एफ भाग	निजी	शुष्क	2455	पी सुधाकरन
				126/2ए भाग	निजी	शुष्क	2985	पी सुधाकरन
				126/2बी भाग	निजी	शुष्क	3973	आर गीतर
				126/2सी भाग	निजी	शुष्क	1681	वी लता
				229/1 भाग	सरकारी	शुष्क	3336	तमिलनाडु सरकार
				230/1 भाग	सरकारी	शुष्क	13049	तमिलनाडु सरकार
				231 भाग	सरकारी	शुष्क	585	तमिलनाडु सरकार
				246 भाग	सरकारी	शुष्क	19050	तमिलनाडु सरकार
				248/1 भाग	सरकारी	शुष्क	3093	तमिलनाडु सरकार
				248/2 भाग	सरकारी	शुष्क	1800	तमिलनाडु सरकार
				249/2 भाग	सरकारी	शुष्क	22280	तमिलनाडु सरकार
				249/3 भाग	सरकारी	शुष्क	310	तमिलनाडु सरकार
				291 भाग	सरकारी	शुष्क	6000	तमिलनाडु सरकार
				292 भाग	सरकारी	शुष्क	16180	तमिलनाडु सरकार
				293/1 भाग	सरकारी	शुष्क	1255	तमिलनाडु सरकार
				294/1 भाग	सरकारी	शुष्क	14023	तमिलनाडु सरकार
				294/2भाग	सरकारी	शुष्क	4315	तमिलनाडु सरकार
				295/1 भाग	निजी	शुष्क	4128	टी एन एच बी
			(8)सुराकुडी	231/2 भाग	सरकारी	शुष्क	1250	तमिलनाडु सरकार
				231/3 भाग	सरकारी	शुष्क	400	तमिलनाडु सरकार
				231/4 भाग	सरकारी	शुष्क	700	तमिलनाडु सरकार
				231/5 भाग	सरकारी	शुष्क	600	तमिलनाडु सरकार
				231/6 भाग	सरकारी	शुष्क	700	तमिलनाडु सरकार
				240/3 भाग	सरकारी	पोरमबोक	6850	तमिलनाडु सरकार
				244/2 भाग	सरकारी	शुष्क	2200	तमिलनाडु सरकार
				244/4 भाग	सरकारी	शुष्क	700	तमिलनाडु सरकार
				244/5 भाग	सरकारी	शुष्क	300	तमिलनाडु सरकार
				244/6 भाग	सरकारी	शुष्क	1000	तमिलनाडु सरकार
				244/7 भाग	सरकारी	शुष्क	300	तमिलनाडु सरकार
				244/8 भाग	सरकारी	शुष्क	300	तमिलनाडु सरकार
				244/9 भाग	सरकारी	शुष्क	300	तमिलनाडु सरकार
				244/10 भाग	सरकारी	शुष्क	350	तमिलनाडु सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				244/11 भाग	सरकारी	शुष्क	2200	तमिलनाडु सरकार
				244/12 भाग	सरकारी	शुष्क	900	तमिलनाडु सरकार
				244/14 भाग	सरकारी	शुष्क	700	तमिलनाडु सरकार
				247/1 भाग	निजी	शुष्क	1350	पी सीतालक्ष्मी
				247/2 भाग	निजी	शुष्क	2000	वी पेरीयाम्माल
				249/3 भाग	निजी	शुष्क	1200	ए अरुणाचलम
				249/4 भाग	निजी	शुष्क	1800	ए अरुणाचलम
				249/5ए1 भाग	निजी	शुष्क	1750	ए अरुणाचलम
				249/5ए4	निजी	शुष्क	200	ए अरुणाचलम
				249/6 भाग	निजी	शुष्क	1450	ए अरुणाचलम
				257/5 भाग	निजी	शुष्क	1950	ए अरुणाचलम
				257/6 भाग	निजी	शुष्क	1750	ए अरुणाचलम
				259/2 भाग	निजी	शुष्क	1450	ए वाल्मीप्यान चेट्टीयार
				259/26 भाग	निजी	शुष्क	200	एस रेणुका
				259/27 भाग	निजी	शुष्क	144	आर कालीमुथु
				259/28 भाग	निजी	शुष्क	144	वी रामासामी
				259/52 भाग	निजी	शुष्क	2350	करुप्पान चेट्टीयार
				260/2 भाग	निजी	शुष्क	2600	पी करुप्पान चेट्टीयार
				262/1 भाग	निजी	शुष्क	1800	आर एम मेयाथाल
				262/5 भाग	निजी	शुष्क	1600	आर एम मेयाथाल
				263/1 भाग	निजी	शुष्क	4600	आर बालासुब्रामण्यन
				264/1 भाग	निजी	शुष्क	1000	वी रामाचन्द्रन
				264/2 भाग	निजी	शुष्क	1000	वी रामाचन्द्रन
				264/3 भाग	निजी	शुष्क	1100	वी रामाचन्द्रन
				264/4ए भाग	निजी	शुष्क	950	एस पोन्नाईया
				264/5ए1 भाग	निजी	शुष्क	630	पी पोन्नालागु
				264/5ए2 भाग	निजी	शुष्क	55	1. एम अरुणाचलम, 2. ए आर महालक्ष्मी
				264/6ए1 भाग	निजी	शुष्क	550	एस चन्द्रन पिल्लै
				264/6ए2 भाग	निजी	शुष्क	8	1. एम अरुणाचलम, 2. ए आर महालक्ष्मी
				264/6ए3 भाग	निजी	शुष्क	70	1. एस मीनाल, 2. एस सुब्रामण्यन
				264/6बी	निजी	शुष्क	200	1. एस मीनाल, 2. एस सुब्रामण्यन
				264/6सी भाग	निजी	शुष्क	40	एस सेलवामबाल
				264/7 भाग	निजी	शुष्क	240	आर शेखर
				265/1ए भाग	निजी	शुष्क	540	पी सीतालक्ष्मी
				265/4 भाग	निजी	शुष्क	1500	एस देवकी
				265/5ए भाग	निजी	शुष्क	1200	के सुकुमारी
				265/5 बी भाग	निजी	शुष्क	750	एस देवकी
				266/2 भाग	निजी	शुष्क	2000	वी पेरीयाम्माल
				266/3ए भाग	निजी	शुष्क	450	आर थांमीजारासी
				266/6ए	निजी	शुष्क	80	एम शक्काराई बावा
				266/7ए1ए भाग	निजी	शुष्क	1400	आर थांमीजारासी
				266/7ए3 भाग	निजी	शुष्क	230	एस सोमाप्रकाश

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				276/1 भाग	निजी	शुष्क	4150	एस दुराई
				276/2 भाग	निजी	शुष्क	2200	एस दुराई
				279 भाग	निजी	शुष्क	11800	पी करुप्पान चेट्टीयार
				282/1 भाग	निजी	शुष्क	3350	ए वाल्मीप्पान चेट्टीयार
				282/2 भाग	निजी	शुष्क	700	जी थंगाम
				282/3 भाग	निजी	शुष्क	93	ए वाल्मीप्पान चेट्टीयार
				282/4 भाग	निजी	शुष्क	2750	जी थंगाम
				286/1ए भाग	निजी	शुष्क	150	आर सवारीम्माल
				286/1बी1सी भाग	निजी	शुष्क	150	एम थामीजा
				286/2ए भाग	निजी	शुष्क	800	1. ए अरुलराज, 2. ए एन्थोनी
				286/2बी1 भाग	निजी	शुष्क	850	एस अमलोर्बावामरी
				286/2बी2 भाग	निजी	शुष्क	400	जी थंगाम
				286/2बी3 भाग	निजी	शुष्क	1100	एस अमलोर्बावामरी
				286/3 भाग	निजी	शुष्क	450	ए लिंगेस जोसफ
				286/6 भाग	निजी	शुष्क	150	ए विजय अमृताराज
				286/7 भाग	निजी	शुष्क	150	आई सकया पनीरसेलवम
				286/8 भाग	निजी	शुष्क	150	आई फ्रांसिस जेवियर
				286/11 भाग	निजी	शुष्क	150	एम अरोकिम
				286/12 भाग	निजी	शुष्क	150	एम एन्थोनी अरुलमनी
				286/15 भाग	निजी	शुष्क	170	एम राजाधी
				290 भाग	निजी	शुष्क	100	एस भागवती
				293/30 भाग	निजी	शुष्क	500	1. ए थिरावीम, 2. एस ईन्नासी, 3. ए रायाप्पान, 4. ए अन्नासी, 5. एस राजु, 6. एस रायाप्पान, 7. एस सेबस्टिन, 8. एस रायाप्पान
				293/31 भाग	निजी	शुष्क	175	एस रायाप्पान
				293/32 भाग	निजी	शुष्क	175	एस आर एस मिछल
				293/33 भाग	निजी	शुष्क	270	एस थिनीसमरी
				293/34 भाग	निजी	शुष्क	260	एन वैकाटाचलम
				293/35 भाग	निजी	शुष्क	300	एन वैकाटाचलम
				293/36ए1 भाग	निजी	शुष्क	170	ए जयलक्ष्मी
				293/37ए1 भाग	निजी	शुष्क	130	मालुम नहीं
				293/37 आई भाग	निजी	शुष्क	70	ए मीनाल
				293/37ए9 भाग	निजी	शुष्क	70	एस राजेश्वरी
				293/37जे भाग	निजी	शुष्क	70	एम उमायाल मुथु
				293/37ए8 भाग	निजी	शुष्क	160	ए जयलक्ष्मी
				294/2 भाग	सरकारी	शुष्क	1650	तमिलनाडु सरकार
				297/1 भाग	निजी	शुष्क	2400	ए सोलाईमलाई
				297/2 भाग	निजी	शुष्क	4000	एम राजामनी
				301/4ए1 भाग	निजी	शुष्क	9550	एस सुधालाईमनी नादर
				301/4बी भाग	निजी	शुष्क	280	के कलारानी
				301/4ए2 भाग	निजी	शुष्क	600	ए चोकाळिगम अरुणचलम
				301/16ए1 भाग	निजी	शुष्क	1400	ए वेल्लाक्कान्नु
				301/16ए4 भाग	निजी	शुष्क	140	जे गनानासोन्नी
				301/16सी भाग	निजी	शुष्क	380	सी सेन्थीलनाथन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				301/18ए भाग	निजी	शुष्क	2600	एम रजाक
				301/18बी भाग	निजी	शुष्क	250	के पथाविल बीबी
				301/18सी भाग	निजी	शुष्क	180	एम शान्ति
				302/1 भाग	निजी	शुष्क	3100	एन ईन्द्रा
				302/2 भाग	निजी	शुष्क	2500	1. ए अरोकीनाथन, 2. पी प्राणज्योति
				303/1 भाग	निजी	शुष्क	850	ए जयलक्ष्मी
				303/2ए1 भाग	निजी	शुष्क	750	एम वैक्टाचलम
				303/3ए1 भाग	निजी	शुष्क	700	डी सेलवाराज
				303/5ए1 भाग	निजी	शुष्क	200	एम वेलमुकान
				303/5ए2 भाग	निजी	शुष्क	150	एम सभाथिनाम
				303/5ए7 भाग	निजी	शुष्क	150	एम वोकार्लिम
				306/1ए भाग	निजी	शुष्क	19	एस वेदानायागम
				306/1बी भाग	निजी	शुष्क	190	एस शिवराज
				337/1 भाग	सरकारी	शुष्क	1640	तमिलनाडु सरकार
				337/3ए1 भाग	निजी	शुष्क	450	सी भागवती अम्माल
				337/3ए2 भाग	निजी	शुष्क	450	जी पदमा
				337/3बी,	निजी	शुष्क	450	मालुम नहीं
				337/4बी भाग	निजी	शुष्क	56	एम थंगावेल
				337/4सी भाग	निजी	शुष्क	510	एस पार्वती
				337/4ए1 भाग	निजी	शुष्क	750	सी भागवती अम्माल
				338/1 भाग	निजी	शुष्क	2856	एस भागवती
				338/3 भाग	निजी	शुष्क	1800	ए सोलाईमलाई
				339 भाग	सरकारी	पोरमबोक	700	तमिलनाडु सरकार
				368/3ए1ए भाग	निजी	शुष्क	250	एम रामानाथन
				368/3बी1ए भाग	निजी	शुष्क	300	एस अबदुल रहमान
				368/4ए भाग	निजी	शुष्क	800	एस अबदुल रहमान
				368/5 भाग	निजी	शुष्क	1050	जी माईकल
				369/1 भाग	सरकारी	शुष्क	94	तमिलनाडु सरकार
				369/2 भाग	निजी	शुष्क	4600	1. एल अमालराज, 2. देसाई अमालराज
				378 भाग	सरकारी	शुष्क	600	तमिलनाडु सरकार
				382/1ए भाग	निजी	शुष्क	3200	वी सेलवाराजी
				383 भाग	सरकारी	पोरमबोक	700	तमिलनाडु सरकार
				409/6 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1300	तमिलनाडु सरकार
				409/7 भाग	सरकारी	पोरमबोक	50	तमिलनाडु सरकार
				410/1 भाग	सरकारी	शुष्क	300	तमिलनाडु सरकार
				410/2 भाग	सरकारी	शुष्क	300	तमिलनाडु सरकार
				410/3 भाग	सरकारी	शुष्क	950	तमिलनाडु सरकार
				410/4 भाग	सरकारी	शुष्क	350	तमिलनाडु सरकार
				410/5 भाग	सरकारी	शुष्क	600	तमिलनाडु सरकार
				410/7 भाग	सरकारी	शुष्क	300	तमिलनाडु सरकार
				410/8 भाग	सरकारी	शुष्क	300	तमिलनाडु सरकार
				410/9 भाग	सरकारी	शुष्क	300	तमिलनाडु सरकार
				410/10 भाग	सरकारी	शुष्क	300	तमिलनाडु सरकार
				410/11 भाग	सरकारी	शुष्क	350	तमिलनाडु सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				410/12 भाग	सरकारी	शुष्क	350	तमिलनाडु सरकार
				414/1 भाग	सरकारी	शुष्क	400	तमिलनाडु सरकार
				414/2 भाग	सरकारी	शुष्क	1000	तमिलनाडु सरकार
				414/3 भाग	सरकारी	शुष्क	900	तमिलनाडु सरकार
				414/4 भाग	सरकारी	शुष्क	850	तमिलनाडु सरकार
				414/5 भाग	सरकारी	शुष्क	1850	तमिलनाडु सरकार

[फा. सं. भारराप्पा-एच.क्यू/11013/2010/एलए/नोटिफ/पीआईयू-काराईकुडी]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION****New Delhi, 1st 8th November, 2010**

S.O. 2739(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1094(E), dated the 14th May, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.210 on the stretch of land from Km.75.200 to Km.94.000 (Tiruchirappalli – Karaikudi Section) in District Sivaganga in the State of Tamil Nadu ;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The New Indian Express" and "Daily Thanthi", both dated the 17th July, 2010, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.75.200 to Km.94.000 (Tiruchirapalli - Karaikudi Section) on the National Highways No.210 in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey / Sub division number	Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Name of the Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sivaganga	1.Karaikudi	(1) Sanjay	57/2A Pt,	Private	Dry	915	C.P.L.Sekar.
				57/2B Pt,	Private	Dry	1749	M.S.M.M.Chokkalingam Chockalingam Endowment Trust
				57/2C Pt,	Private	Dry	2200	K.Karuppiah
				58 Pt,	Govt	Poramboke	1778	Government of Tamil Nadu
				59 Pt,	Private	Dry	593	M.S.M.M.Chokkalingam Chettiar Endowment Trust
				62 Pt,	Private	Dry	2969	S.Saraswathiyammal.
				64/1 Pt,	Private	Dry	1633	R.Ramanathan Chettiar.
				64/2A Pt,	Private	Dry	1000	S.Meyyappan-1, S.Chellamuthu-2, N.Alagappan-3, R.Meyyappan-4.
				64/2B Pt,	Private	Dry	227	President Sangarapuram Panchayat
				64/3 Pt,	Private	Dry	4550	N.Sathappa Chettiar.
				64/4 Pt,	Govt	Poramboke	2350	Government of Tamil Nadu
				64/5 Pt,	Private	Dry	528	S.N.Vijayaraghavan
				66/1 Pt,	Private	Dry	9625	Sri Snehavalli Textiles Pvt Limited
				71 Pt,	Govt	Poramboke	2064	Government of Tamil Nadu
			(2) Kovilur	30/3K Pt,	Private	Dry	88	S.Bose.
				30/3L Pt,	Private	Dry	604	S.Bose.
				30/3M Pt,	Private	Dry	647	S.Bose.
				30/3N Pt,	Private	Dry	756	S.Bose.
				30/3"O" Pt,	Private	Dry	9377	T.Muthu-1, K.Julie-2.
				30/3P Pt,	Private	Dry	3545	A.Kasi Ambalam-1, A.Pazhani Ambalam-2.
				31/1 Pt,	Govt	Poramboke	7967	Government of Tamil Nadu
				31/2B3 Pt,	Private	Dry	1589	Devaki Nathan.
				31/3A Pt,	Private	Dry	3636	Devaki Nathan.
				31/3B Pt,	Private	Dry	1376	C.Vairavan.
				31/3C Pt,	Private	Dry	98	K.Ramayee Ammal.
				51/1B Pt,	Private	Dry	1	C.Padmanaban.
				51/3 Pt,	Private	Dry	834	R.Chockalingam.
				51/4 Pt,	Private	Dry	5017	K.Malaikkannan.
				51/5,	Private	Dry	1300	R.Chockalingam.
				51/6A Pt,	Private	Dry	1662	S.Pazhanivelu.
			(3) Karaikudi	1 Pt,	Govt	Poramboke	31700	Government of Tamil Nadu
				12 Pt,	Govt	Poramboke	25000	Government of Tamil Nadu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				17/1 Pt,	Govt	Poramboke	2200	Government of Tamil Nadu
				17/4	Private	Dry	300	P.Meyyappan Ambalam.
				17/5 Pt,	Govt	Poramboke	4000	Government of Tamil Nadu
				19/18 Pt,	Private	Dry	200	P.Chellammal.
				19/19 Pt,	Private	Dry	200	M.Seenivasakkonar.
				19/20 Pt,	Private	Dry	250	K.Kannappa konar.
				19/22 Pt,	Private	Dry	450	K.Kannappa konar.
				19/23 Pt,	Private	Dry	450	C.Periyakaruppan Ambalam.
				20/1 Pt,	Private	Dry	550	C.Ramalingam.
				20/2 Pt,	Private	Dry	400	C.Subramanian.
				20/3 Pt,	Govt	Poramboke	61	Government of Tamil Nadu
				20/4 Pt,	Private	Dry	2460	R.Govindasamy.
				20/5 Pt,	Private	Dry	1250	C.Periyakaruppan Ambalam.
				20/6A	Private	Dry	150	C.Subramanian-1, R.Govindasamy-2.
				20/6B	Private	Dry	150	C.Ramalingam
				20/7A	Private	Dry	100	P.Mariyappan.
				20/7B	Private	Dry	100	K.Kannappa Konar.
				20/8 Pt,	Private	Dry	100	P.Chellammal.
				20/9Pt,	Private	Dry	30	P.Chellammal.
				20/11 Pt,	Private	Dry	50	M.Seenivasakkonar.
				20/12 Pt,	Govt	Poramboke	5100	Government of Tamil Nadu
				21/10 Pt,	Private	Dry	200	C.Azhagappan.
				24 Pt,	Govt	Poramboke	40600	Government of Tamil Nadu
				31 Pt,	Govt	Poramboke	2500	Government of Tamil Nadu
				32 Pt,	Govt	Poramboke	3400	Government of Tamil Nadu
				39/1 Pt,	Private	Wet	200	C.Azhagappan.
				39/4A Pt,	Private	Wet	50	S.Panchanathan Ambalam.
				40/1 ,	Govt	Poramboke	2100	Government of Tamil Nadu
				40/2 Pt,	Private	Wet	80	P.Seenivasan.
				40/3 Pt,	Private	Wet	50	P.Nachal-1, S.RajaKumari-2.
				40/4 Pt,	Private	Wet	5	M.Meyyappan Ambalam.
				40/7A Pt,	Private	Wet	200	S.Rajendran.
				40/7B Pt,	Private	Wet	50	S.Ramakrishnan.
				40/8	Private	Wet	200	P.Seenivasan.
				40/9 Pt,	Private	Wet	100	P.Mariyappan.
				40/10 Pt,	Private	Wet	100	C.Alagappan.
				40/11 Pt,	Private	Wet	100	P.Meyyar.
				40/12 Pt,	Private	Wet	100	R.Somasundaram.
				40/13 Pt,	Private	Wet	500	C.Periyakaruppan Ambalam.
				40/14 Pt,	Private	Wet	300	C.Periyakaruppan Ambalam.
				40/15 Pt,	Private	Wet	200	C.Periyakaruppan Ambalam.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				40/16A Pt,	Private	Wet	200	P.Meyyapan Ambalam.
				40/16B Pt,	Private	Wet	100	P.Dhanabhagam.
				41/23A Pt,	Private	Wet	10	S.Srinivasan.
				41/23B Pt,	Private	Wet	20	S.Srinivasan.
				41/24 Pt,	Private	Wet	50	M.Seenivasakkonar.
				41/25 Pt,	Private	Wet	100	P.Mariyappan.
				209/6 Pt,	Private	Dry	800	C.Meyyappan-1, C.Vellameyan-2, C.Karupppiah-3.
				209/27 Pt,	Govt	Dry	900	Government of Tamil Nadu
				210/21 Pt,	Private	Dry	40	K.Chithambaram.
				210/23 Pt,	Private	Dry	700	A.Periyakaruppan.
				210/24 Pt,	Private	Dry	390	M.Vellaichamy.
				210/26 Pt,	Private	Dry	385	M.Meyyar.
				210/28 Pt,	Private	Dry	300	C.Periyakaruppan.
				212/3Pt,	Private	Dry	880	P.M.Meyyar.
				212/4 Pt,	Private	Dry	575	K.Chinnaiah.
				212/5 Pt,	Private	Dry	610	P.M.Meyyar.
				212/8 Pt,	Private	Dry	150	A.Aadhiyan.
				214/1 Pt,	Govt	Poramboke	1900	Government of Tamil Nadu
				214/2 Pt,	Private	Dry	900	C.Vellaichamy.
				217/1	Govt	Poramboke	550	Government of Tamil Nadu
				217/2 Pt,	Private	Dry	180	P.Periyakaruppan.
				217/3 Pt,	Private	Dry	475	K.Aadhiyan.
				217/8C	Private	Dry	278	K.Aarumugam.
				217/8D Pt,	Private	Dry	200	K.Subbaiah.
				217/15 Pt,	Private	Dry	300	T.Thirumeni-1, T.Raman-2, T.Subbiah-3.
				217/16 Pt,	Govt	Poramboke	50	Government of Tamil Nadu
		(4)Managiri Sukkanendal		93/1A Pt,	Private	Dry	2030	A.Chellam-1, A.Chinnaiah-2, S.Savarimuthu Udaiyar- 3, P.Ammakkannu-4, B.Yagappan Udaiyar- 5,R.Sebasthi Udayar- 6,S.Vinaitheerthan7.
				93/1B Pt,	Private	Dry	7935	R.Ramasubramanian a Ramasubramanian.
				93/1C Pt,	Private	Dry	1500	M.Arunachalam-1, C.Rajeswari-2.
				93/4 Pt,	Govt	Poramboke	18600	Government of Tamil Nadu
				99/1D Pt,	Private	Dry	470	S.Muthualagu.
				100/1A&A Pt,	Private	Dry	8380	C.Pazhani Ambalam-1, Chockanambalam-2, Vishalatchi-3, V.Posali 4.
				100/2A1 Pt,	Private	Dry	160	T.Bhagyalcelu.
				100/17,	Private	Dry	260	A.Periyanan.
				100/20 Pt,	Private	Dry	100	S.Micheal Ammal.
				100/36 Pt,	Private	Dry	65	L.Anjalamaru.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				101/1 Pt.	Private	Dry	430	N.Chellamal.
				101/2 Pt.	Private	Dry	40	T.Ramanathan.
				101/12 Pt.	Private	Dry	3520	R.Ramasamy Chettiar.
				101/13 Pt.	Private	Dry	200	R.Ramasamy Chettiar.
				101/14 Pt.	Private	Dry	80	M.Thennammai.
				101/15,	Private	Dry	200	P.Pazhaniyappan.
				101/16,	Private	Dry	200	L.Pushpavalli.
				101/17,	Private	Dry	200	R.Ramasamy Chettiar.
				101/18,	Private	Dry	200	K.Amuthavalli.
				101/19,	Private	Dry	200	S.Muthurani.
				101/20,	Private	Dry	400	U.Shanmuganathan.
				101/21,	Private	Dry	200	S.Ambigai.
				101/22,	Private	Dry	200	G.Kamalammal.
				101/35 Pt.	Private	Dry	20	P.Sivakami.
				101/36 Pt.	Private	Dry	160	P.Unnapazhaniyappan.
				101/37,	Private	Dry	200	K.Vadivel.
				101/38,	Private	Dry	200	R.Theivazhai Aachi.
				101/39,	Private	Dry	200	Minor: Veerappan, Guardian V.R.Subramaniyan
				101/40 Pt.	Private	Dry	185	S.Subramaniyan.
				101/41 Pt.	Private	Dry	80	S.Kathiresan.
				101/46 Pt.	Private	Dry	200	R.Ramasamy Chettiar.
				101/47,	Private	Dry	200	V.Muthathal.
				101/48 Pt.	Private	Dry	10	T.Umaamalai.
				101/49,	Private	Dry	200	A.Solaiyappa Chettiar.
				101/50,	Private	Dry	400	L.Chithambaram.
				101/51,	Private	Dry	200	V.Nacchal.
				101/52,	Private	Dry	200	A.Veerappan.
				101/53,	Private	Dry	200	N.Chokkalingam.
				101/54,	Private	Dry	200	R.Umaamalai.
				101/55,	Private	Dry	200	M.Radhakrishnan.
				101/56,	Private	Dry	200	N.Minor: Veerappan.
				101/57,	Private	Dry	200	M.Valliyammai.
				101/58 Pt.	Private	Dry	110	K.Kalimuthu.
				101/60 Pt.	Private	Dry	170	N.Ramalakshmi alias Radha.
				101/61 Pt.	Private	Dry	55	C.Kausalya Minor. Natarajan-Guardian.
				101/68 Pt.	Private	Dry	75	R.Ramasamy Chettiar.
				101/70 Pt.	Private	Dry	10	S.Kumarappan.
				101/71 Pt.	Private	Dry	180	S.Veerammai.
				101/72,	Private	Dry	200	R.Thanooemalai.
				101/73,	Private	Dry	200	R.Chidambaram.
				101/74 Pt.	Private	Dry	145	K.Kumarappan.
				101/75,	Private	Dry	200	K.Azhagappan.
				101/76,	Private	Dry	200	V.Subbramaniyan.
				101/77,	Private	Dry	200	A.Vishalatchi.
				101/78 Pt.	Private	Dry	1480	R.Ramasamy Chettiar.
				101/84/A1 Pt.	Private	Dry	420	R.Ramasamy Chettiar.
				101/84/A2	Private	Dry	460	R.Ravichandran-1, R.Shanmugavalli-2.
				101/84/A3	Private	Dry	230	R.Ramasamy Chettiar.
				103/1 Pt.	Private	Dry	25	S.Vinatheerthan-1, Pichamuthu-2, Mariyarasu-3.
				105/1A1 Pt.	Private	Dry	1200	R.Alagiyammal.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				105/1B,	Private	Dry	440	M.Ponnalagi Ammal.
				105/1C,	Private	Dry	200	S.Ramaiya.
				105/1D,	Private	Dry	200	S.Ramaiya.
				105/1E,	Private	Dry	435	AL.Meenatchisundaram.
				105/1F Pt,	Private	Dry	20	M.Sornavalli.
				105/3B1 Pt,	Private	Dry	1036	S.Muthu.
				105/3B2,	Private	Dry	200	S.John Baptist.
				105/5 Pt,	Private	Dry	390	M.Joseph Raj.
				105/8,	Private	Dry	200	S.Bazeera.
				135/7 Pt,	Private	Dry	70	M.Veeraiya Pillai-1, L.Sivanantha Perumal- 2, Sivakami-3, Mala-4.
				135/8 Pt,	Private	Dry	200	R.Chithambaram.
				135/11 Pt,	Private	Dry	275	R.Chithambaram.
				135/12 Pt,	Private	Dry	400	B.Madhavan.
				135/13 Pt,	Private	Dry	450	A.Perumal.
				135/14 Pt,	Govt	Poramboke	150	Government of Tamil Nadu
				186/2,	Govt	Poramboke	1200	Government of Tamil Nadu
				186/25 Pt,	Private	Dry	1225	P.K.Paneer Selvam.
				186/26,	Private	Dry	2000	P.Meyyappakon.
				186/27,	Private	Dry	2500	M.Alagappan.
				186/28 Pt,	Private	Dry	100	K.Ramakkonar.
				297/3 Pt,	Private	Dry	50	R.Arjunan.
				297/4 Pt,	Private	Dry	1080	R.Arjunan.
				297/5 Pt,	Private	Dry	650	V.Veerabathirakkon.
				297/6 Pt,	Private	Dry	3150	V.Veerabathirakkon.
				297/7 Pt,	Private	Dry	1750	R.Arjunan.
				324/2 Pt,	Private	Dry	880	A.Posalan.
				324/3 Pt,	Private	Dry	1760	V.Sivasami
				324/6 Pt,	Private	Dry	2420	C.KanagaLaksmi.
				324/7 Pt,	Private	Dry	2650	R.Valliyammai.
				324/9 Pt,	Private	Dry	100	R.Gajalaksmi.
				324/10 Pt,	Private	Dry	2600	R.Valliyammai..
				326/11C Pt,	Private	Dry	10	S.Mohammed Das.
				326/11A1 Pt,	Private	Dry	300	D.Jeyaraman..
				327/2 Pt,	Private	Dry	3700	T.Veerayee.
				327/3 Pt,	Govt	Poramboke	700	Government of Tamil Nadu
				327/4 Pt,	Private	Dry	1130	A.Karuppayee Ammal
				327/5 Pt,	Private	Dry	3900	R.Dhanam.
				327/6 Pt,	Private	Dry	1830	A.Alagappan.
				327/7 Pt,	Private	Dry	520	M.Muthammal..
				327/13 Pt,	Private	Dry	110	A.Alagappan.
				328/1 Pt,	Private	Dry	1400	M.Muthammal.
				328/2 Pt,	Private	Dry	890	K.Athammal.
				328/3 Pt,	Private	Dry	50	Shanthabai.
				330/1 Pt,	Private	Dry	565	V.Muthulaksmi.
				333/1A1,	Private	Dry	300	S.Ahammed Marzood-1, S.Abdul Malik-2.
				333/1A2 Pt,	Private	Dry	1470	S.Mohan Servai.
				333/1B,	Private	Dry	300	A.Annadurai.
				333/1C Pt,	Private	Dry	700	K.Kala.
				333/2A,	Private	Dry	350	V.Jeyamani.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				333/2B1 Pt,	Private	Dry	1550	S.Mohan
				333/3 Pt,	Private	Dry	150	A.Saraswathi.
				333/6 Pt,	Private	Dry	125	A.Umaiya.
				333/12,	Private	Dry	200	G.Roja.
				334/1 Pt,	Private	Dry	100	S.Subramanian.
				334/2 Pt,	Private	Dry	2970	M.Subburaman.
				334/3 Pt,	Private	Dry	1820	S.Sevugan Chettiar
				334/4 Pt,	Private	Dry	900	S.Sevugan Chettiar
				334/5 Pt,	Private	Dry	1940	S.Sevugan Chettiar
				334/6 Pt,	Private	Dry	885	C.Ramalingam Chettiar.
				334/7 Pt,	Private	Dry	125	C.Ramalingam Chettiar.
				334/8A1 Pt,	Private	Dry	500	S.Muniyasamy Naidu.
				334/8A2 Pt,	Private	Dry	280	A.Kulanthai Terase.
				334/8A3,	Private	Dry	400	S.Elizabeth Rani.
				334/8A4,	Private	Dry	200	A.RoseMary.
				334/8E Pt,	Private	Dry	480	S.Ravichandran.
				334/8C2 Pt,	Private	Dry	10	G.Chellam.
				334/8D1,	Private	Dry	200	M.Pandiyan.
				334/8D2,	Private	Dry	200	R. Jeyam.
				334/8D3,	Private	Dry	400	S.Ravichandran.
				334/9A1 Pt,	Private	Dry	640	S.Muniyasamy Naidu
				334/9A2 Pt,	Private	Dry	970	S.Sikkandar.
				334/9B Pt,	Private	Dry	160	R.Thirunaukkarasu
				334/9C1 Pt,	Private	Dry	160	R.Thirunaukkarasu
				334/9C2,	Private	Dry	200	P.Arumagammal.
				334/9D1 Pt,	Private	Dry	230	R.Thirunaukkarasu.
				334/9D2,	Private	Dry	200	P.Arumagammal.
				334/9D3,	Private	Dry	200	R.Thirunaukkarasu.
				335/6 Pt,	Private	Dry	520	Karuppiah.
				335/7 Pt,	Private	Dry	1850	A. Karuppiah.
				335/10 Pt,	Private	Dry	2700	B.Krishnan.
				336/ 1 Pt,	Private	Dry	1830	T.Madhiyazhagan.
				336/2 Pt,	Private	Dry	2300	T.Madhiyazhagan.
				336/3 Pt,	Private	Dry	2700	S.Shek Abdullah.
				336/4 Pt,	Private	Dry	150	T. Selvakumar.
				336/5 Pt,	Private	Dry	3200	T.Selvakumar.
				336/6A Pt,	Private	Dry	430	A.Zakeer.
				337/8 Pt,	Private	Dry	130	Kaliyammal-1, Thillaiyammal-2.
				337/9 Pt,	Private	Dry	2700	R.Shanthabai .
				338/1 Pt,	Govt	Poramboke	1130	Government of Tamil Nadu
				338/2 Pt,	Private	Dry	1290	M.Udaiyammal.
				338/3 Pt,	Govt	Poramboke	1815	Government of Tamil Nadu
				350/10 Pt,	Private	Dry	20	S.Jaffar Fathima..
				351/2 Pt,	Private	Dry	550	B.Siddhi Barzitha.
				351/3 Pt,	Private	Dry	1120	V. Sivasami..
				351/6A3,	Private	Dry	200	M.Selvam.
				351/6A4 Pt,	Private	Dry	800	S.Mohan Servai.
				351/6B,	Private	Dry	250	V.Jeyamani.
				351/6C Pt,	Private	Dry	260	R.Sakunthala.
				351/7A1 Pt,	Private	Dry	2100	S.Mohan Servai.
				351/7A2 Pt,	Private	Dry	155	Navaneethakrishnan-1, Jeyalakshmi-2.
				351/10 Pt,	Private	Dry	2720	R.Arjunan.
				351/12 Pt,	Private	Dry	145	N.Kulanthai Velu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(5) Nerpugapatti	86/4 Pt,	Private	Dry	10	N.Subbaiah.
				86/5 Pt,	Private	Dry	250	S.Sornamuthu Ammal.
				86/6 Pt,	Govt	Poramboke	70	Government of Tamil Nadu
				86/10 Pt,	Private	Dry	450	S.Sornamuthu Ammal.
				88/1 Pt,	Govt	Poramboke	510	Government of Tamil Nadu
				88/2A Pt,	Private	Dry	5150	S.M.Bhagyaraj.
				88/2B Pt,	Private	Dry	2950	S.M.Bhagyaraj.
				90/1 Pt,	Private	Dry	1100	M.GnanaShanmugam Pillai.
				90/2 Pt,	Govt	Poramboke	330	Government of Tamil Nadu
				90/3 Pt,	Private	Dry	1800	G.Marimuthu.
				93/15 Pt,	Private	Dry	130	C.Azhagi.
				93/22A Pt,	Private	Dry	60	C.Azhagi.
				93/22B Pt,	Private	Dry	640	P.Karuppiah.
				94/7B Pt,	Private	Dry	40	V.Nachiyappan.
				94/7C,	Private	Dry	100	V.Kasi Servai.
				94/9B Pt,	Private	Dry	20	C.Arumugam.
				94/9C,	Private	Dry	50	C.MuthuServai.
				94/10 Pt,	Private	Dry	160	K.Marimuthu.
				94/11 Pt,	Govt	Natham	40	Government of Tamil Nadu
				95/18 Pt,	Private	Dry	950	N.Subbaiah Chettiar
				106 Pt,	Govt	Poramboke	5950	Government of Tamil Nadu
				150/2 Pt,	Private	Dry	90	K.Paramasamy.
				151/1 Pt,	Govt	Poramboke	1100	Government of Tamil Nadu
				152/3 Pt,	Private	Wet	770	A.Sigappi.
				161/1 Pt,	Private	Wet	1020	P.Padikasu.
				161/2 Pt,	Private	Dry	3560	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				161/3 Pt,	Private	Dry	430	P.Padikasu.
				164 Pt,	Govt	Poramboke	3950	Government of Tamil Nadu
				166/1 Pt,	Govt	Poramboke	2000	Government of Tamil Nadu
				167 Pt,	Govt	Poramboke	620	Government of Tamil Nadu
				270/2 Pt,	Private	Wet	80	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				270/3 Pt,	Private	Wet	20	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				270/4,	Private	Wet	550	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				270/5 Pt,	Private	Wet	680	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				270/6,	Private	Wet	300	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				270/7,	Private	Wet	300	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				270/8,	Private	Wet	300	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				270/9,	Private	Wet	300	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				270/10 Pt,	Private	Wet	300	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				270/12 Pt,	Private	Wet	190	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				270/13,	Private	Wet	800	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				270/14,	Private	Wet	250	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				270/15,	Private	Wet	300	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				270/16,	Private	Wet	600	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				270/17 Pt,	Private	Wet	100	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				270/19 Pt,	Private	Wet	300	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				270/20,	Private	Wet	300	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				271/1 Pt,	Govt	Natham	170	Government of Tamil Nadu
				271/2 Pt,	Govt	Poramboke	1200	Government of Tamil Nadu
				271/15 Pt,	Private	Natham	200	P.Solaiyammal.
				271/16,	Private	Natham	300	C.Muthu Servai.
				271/17 Pt,	Private	Natham	120	Ramachandra Valayam, Pushuthi Paathai.
				271/22 Pt,	Private	Natham	50	P.Velaayi.
				271/23 Pt,	Private	Natham	180	M.Karuppiyah.
				271/24,	Private	Natham	380	R.Vellaichamy.
				271/25,	Private	Natham	220	C.Seenivasan.
				271/26,	Private	Natham	120	C.Lakshmi.
				272/1 Pt,	Govt	Poramboke	80	Government of Tamil Nadu
				272/2 Pt,	Private	Dry	250	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				272/3 Pt,	Private	Dry	260	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				272/7 Pt,	Private	Wet	320	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				272/9 Pt,	Private	Wet	20	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				272/10,	Private	Wet	200	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				272/11,	Private	Wet	200	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				272/12 Pt,	Private	Wet	50	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				272/23 Pt,	Private	Wet	140	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				272/24 Pt,	Private	Wet	95	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				272/25,	Private	Wet	300	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				272/26,	Private	Wet	150	Arulmigu Poovandipatti 1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				273/8 Pt,	Private	Wet	60	Arulmigu Poovandipatti- 1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				273/9 Pt,	Private	Wet	100	Arulmigu Poovandipatti- 1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				273/10 Pt,	Private	Wet	90	Arulmigu Poovandipatti- 1. Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				273/11 Pt,	Private	Wet	80	Arulmigu Poovandipatti- 1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				273/12 Pt,	Private	Wet	100	Arulmigu Poovandipatti- 1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				273/13,	Private	Wet	200	Arulmigu Poovandipatti- 1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				273/14,	Private	Wet	100	Arulmigu Poovandipatti- 1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				273/15,	Private	Wet	100	Arulmigu Poovandipatti- 1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				273/16,	Private	Wet	200	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				273/17,	Private	Wet	200	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				273/18,	Private	Wet	150	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				273/19 Pt,	Private	Wet	30	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				273/32 Pt,	Private	Wet	500	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				273/34 Pt,	Private	Wet	250	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				273/35 Pt,	Private	Wet	230	Arulmigu Poovandipatti-1, Desiganathar Tharkala Numbaker-2, Desiganathar Tharkala numbaker-3.
				276 Pt,	Govt	Poramboke	4380	Government of Tamil Nadu
				344/22 Pt,	Govt	Natham	150	Government of Tamil Nadu
				344/23 Pt,	Govt	Poramboke	25	Government of Tamil Nadu
				344/24 Pt,	Govt	Poramboke	80	Government of Tamil Nadu
				345/1 Pt,	Govt	Poramboke	40	Government of Tamil Nadu
				345/17 Pt,	Govt	Natham	200	Government of Tamil Nadu
				369/9 Pt,	Govt	Poramboke	30	Government of Tamil Nadu
				369/12 Pt,	Govt	Natham	54	Government of Tamil Nadu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(6) Kanadukathan	369/13,	Govt	Natham	500	Government of Tamil Nadu
				310/1 Pt,	Govt	Poramboke	6500	Government of Tamil Nadu
				323/22 Pt,	Private	Wet	318	R.Chithambaram
				323/23 Pt,	Private	Wet	301	P.Solai Alagar.
				323/24 Pt,	Private	Wet	171	K.Solaimalai.
				323/29 Pt,	Private	Wet	199	P. Solai Alagar.
				323/30,	Govt	Poramboke	300	Government of Tamil Nadu
				323/31 Pt,	Private	Wet	276	P.Solaimalai.
				324/4 Pt,	Private	Wet	135	P. Solaimalai.
				324/5 Pt,	Private	Wet	213	K.Solaimalai.
				324/16 Pt,	Private	Wet	348	P. Solaimalai.
				324/17 Pt,	Private	Wet	572	R.Chithambaram.
				324/18	Govt	Poramboke	300	Government of Tamil Nadu
				329/6A Pt,	Private	Wet	996	R.Sathappan.
				329/6B	Private	Wet	610	R.Muthalagu-1, M.Balasubramanian-2, M.Sattappan-3.
				329/20 Pt,	Private	Wet	54	R.Solaimalai
				329/21 Pt,	Private	Wet	17	M.Ramasamy Chettiar.
				329/22	Private	Wet	500	M.Periyakaruppan.
				329/23A	Private	Wet	200	R. Solaiyan.
				329/23B	Private	Wet	150	Chidambaram.
				330 Pt,	Govt	Poramboke	4300	Government of Tamil Nadu
				331/10 Pt,	Private	Wet	94	S.Ramasamy.
				331/11A	Private	Wet	350	P.Ganapathy Ambalam.
				331/11B	Private	Wet	450	P.Ganapathy Ambalam.
				331/12A	Private	Wet	450	R.Chithambaram
				331/12B	Private	Wet	450	R.Solaiyan.
				331/13 Pt,	Private	Wet	50	K. Vishalatchi.
				331/14 Pt,	Private	Wet	150	C.Soman-1, C.Ramasamy-2.
				331/19 Pt,	Private	Wet	4700	M.A.M.Ramasamy Chettiar
				343/1 Pt.,	Private	Wet	5425	M.A.M.Ramasamy Chettiar
				343/2B Pt,	Private	Wet	696	N.Nellaiyan
				343/2C,	Private	Wet	500	A.Ramasamy.
				343/3,	Private	Wet	350	S.Kasi-1, S.Venkatachalam-2.
				343/4,	Private	Wet	150	B.Vishalatchi.
				343/5,	Private	Wet	150	B.Vishalatchi.
				343/6 Pt,	Private	Wet	125	R.Periyakaruppan
				343/8B Pt,	Private	Wet	95	L.Pazhaniyappan.
				343/9,	Private	Wet	350	K. Valliyammai.
				343/10A Pt,	Private	Wet	217	S.Kasi-1, S.Venkatachalam-2.
				343/10B Pt,	Private	Wet	599	S.Venkatachalam.
				343/11 Pt,	Private	Wet	260	N.Kasi.
				343/12C Pt,	Private	Wet	132	N.Nelliyan.
				343/12D	Private	Wet	300	N.Kasi.
				343/12E	Private	Wet	450	N.Nelliyan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				343/12F.	Private	Wet	300	N.Nelliyān.
				343/12G Pt.	Private	Wet	251	N.Kasi.
				343/12H Pt.	Private	Wet	303	N.Nelliyān.
				343/12-I Pt.	Private	Wet	1063	N.Kasi.
				343/13,	Private	Wet	375	M.Kalimuthan.
				343/14 Pt.	Private	Wet	507	N.Kasi.
				343/15,	Private	Wet	637	S.Ramu.
				345 Pt.	Private	Wet	7100	M.Vallikannu-1, Alaguramakrishnan-2.
				346 Pt.	Govt	Poramboke	1100	Government of Tamil Nadu
				347 Pt.	Govt	Poramboke	12300	Government of Tamil Nadu
				348 Pt.	Govt	Poramboke	8000	Government of Tamil Nadu
				356/46 Pt.	Private	Dry	1650	K.Gunasekaran.
				356/47 Pt.	Private	Dry	1002	A.Chockalingam.
				356/48 Pt.	Private	Dry	144	A.Subbaiah.
				356/49 Pt.	Private	Dry	144	M.Murugan.
				356/52 Pt.	Private	Dry	1162	A.Adaikkan.
				356/53 Pt.	Private	Dry	1306	A.Kannan.
				356/56 Pt.	Private	Dry	7000	M.Vaithyalingham.
				356/57 Pt.	Private	Dry	800	C.Valliyammai.
				356/59,	Private	Dry	1850	C.Shanmugasundaram.
				356/62 Pt.	Private	Dry	500	R.Thennappan.
				356/64 Pt.	Private	Dry	2800	R.Vasanthai.
				356/65 Pt.	Private	Dry	3150	V.Chellammal.
				356/67 Pt.	Private	Dry	500	M.Lakshmi.
				360 Pt.	Private	Dry	1100	M.P.CT.K.Chokkalinga Chettiar
				361 Pt.	Private	Dry	830	M.P.CT.K.Chokkalinga Chettiar
				363/1 Pt.	Private	Dry	383	S.Rajagopal.
				363/2 Pt.	Private	Dry	837	S.Rajagopal.
				363/3,	Private	Dry	850	S.Rajagopal.
				363/4 Pt.	Private	Dry	1433	S.Durai.
				363/5 Pt.	Private	Dry	1252	S.Subramaniyan.
				366/1 Pt.	Private	Dry	3850	G.Karthickeyan.
				367/1 Pt.	Private	Dry	2500	M.Ramasamy Chettiar
				513/1 Pt.	Govt	Poramboke	1930	Government of Tamil Nadu
				528/1 Pt.	Govt	Natham	358	Government of Tamil Nadu
				528/2 Pt.	Private	Natham	5	R.Meenakshi.
				528/3 Pt.	Govt	Natham	320	Government of Tamil Nadu
				528/4 Pt.	Private	Natham	56	R.Thanacermalai.
				528/5 Pt.	Private	Natham	119	R.Chinnambaram.
				533/8 Pt.	Govt	Natham	350	Government of Tamil Nadu
				534/1 Pt.	Govt	Natham	79	Government of Tamil Nadu
				534/2,	Private	Natham	251	K.Aarunugam.
				534/3 Pt.	Private	Natham	190	N.Azhagan.
				534/4 Pt.	Govt	Natham	175	Government of Tamil Nadu
				534/6 Pt.	Private	Natham	53	K.Veerayil.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				534/13 Pt,	Private	Natham	386	C. Alagammai Aachi.
				534/14 Pt,	Private	Natham	460	P. Kasi Viswanatha Chettiar
				534/16,	Private	Natham	675	P. Chellappa Chettiar-1, Venkatachalam Chettiar-2, P. Subramaniyan-3.
				534/18 Pt,	Private	Natham	185	C. Muthukumar Chettiar.
				534/19 Pt,	Private	Natham	72	C. Annamalai Chettiar.
				534/24 Pt,	Private	Natham	336	M. Venkatesh
				534/25,	Private	Natham	370	M. Ravichandran Meyyappan
				534/26 Pt,	Private	Natham	330	M. Kannana Pazhaniyappan
				534/28 Pt,	Private	Natham	9	M. Udaiyappan.
				546/2 Pt,	Private	Natham	210	S. Laksmiyammal.
				546/3,	Private	Natham	148	R. Ramasamy.
				546/4,	Private	Natham	260	A. Andiyappan.
			(7) Kalanivasal	69 Pt,	Govt	Poramboke	10962	Government of Tamil Nadu
				76/1 Pt,	Private	Dry	1034	R. Vasantha
				85/1A Pt,	Private	Dry	5000	C. Pandiyarajan.
				85/1B Pt,	Private	Dry	100	C. Pandiyarajan.
				116 Pt,	Govt	Poramboke	21138	Government of Tamil Nadu
				124/2 Pt,	Private	Dry	2960	K. Panneer Selvam.
				124/3A	Govt	Dry	500	Government of Tamil Nadu
				124/3B	Private	Dry	300	C. Kattayan-1, V. Picchar-2.
				124/4	Govt	Dry	150	Government of Tamil Nadu
				124/5 Pt,	Govt	Poramboke	2086	Government of Tamil Nadu
				124/6 Pt,	Private	Dry	162	K. Panneer Selvam.
				125/1 Pt,	Govt	Dry	220	Government of Tamil Nadu
				125/3 Pt,	Govt	Dry	2100	Government of Tamil Nadu
				125/4 Pt,	Govt	Dry	150	Government of Tamil Nadu
				126/1C Pt,	Private	Dry	552	P. Ravi
				126/1D Pt,	Private	Dry	3627	P. Pandiyan.
				126/1E Pt,	Private	Dry	5520	P. Nambisubramaniyan.
				126/1F Pt,	Private	Dry	2455	P. Sudhakaran.
				126/2A Pt,	Private	Dry	2985	P. Sudhakaran.
				126/2B Pt,	Private	Dry	3973	R. Geetha.
				126/2C Pt,	Private	Dry	1681	V. Latha.
				229/1 Pt,	Govt	Dry	3336	Government of Tamil Nadu
				230/1 Pt,	Govt	Dry	13049	Government of Tamil Nadu
				231 Pt,	Govt	Dry	585	Government of Tamil Nadu
				246 Pt,	Govt	Dry	19050	Government of Tamil Nadu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				248/1 Pt,	Govt	Dry	3093	Government of Tamil Nadu
				248/2 Pt,	Govt	Dry	1800	Government of Tamil Nadu
				249/2 Pt,	Govt	Dry	22280	Government of Tamil Nadu
				249/3 Pt,	Govt	Dry	310	Government of Tamil Nadu
				291 Pt,	Govt	Dry	6000	Government of Tamil Nadu
				292 Pt,	Govt	Dry	16180	Government of Tamil Nadu
				293/1 Pt,	Govt	Dry	1255	Government of Tamil Nadu
				294/1 Pt,	Govt	Dry	14023	Government of Tamil Nadu
				294/2Pt,	Govt	Dry	4315	Government of Tamil Nadu
				295/1 Pt,	Private	Dry	4128	T.N.H.B.
			(8) .Soorakudi	231/2 Pt,	Govt	Dry	1250	Government of Tamil Nadu
				231/3 Pt,	Govt	Dry	400	Government of Tamil Nadu
				231/4 Pt,	Govt	Dry	700	Government of Tamil Nadu
				231/5 Pt,	Govt	Dry	600	Government of Tamil Nadu
				231/6 Pt,	Govt	Dry	700	Government of Tamil Nadu
				240/3 Pt,	Govt	Poramboke	6850	Government of Tamil Nadu
				244/2 Pt,	Govt	Dry	2200	Government of Tamil Nadu
				244/4 Pt,	Govt	Dry	700	Government of Tamil Nadu
				244/5 Pt,	Govt	Dry	300	Government of Tamil Nadu
				244/6 Pt,	Govt	Dry	1000	Government of Tamil Nadu
				244/7 Pt,	Govt	Dry	300	Government of Tamil Nadu
				244/8 Pt,	Govt	Dry	300	Government of Tamil Nadu
				244/9 Pt,	Govt	Dry	300	Government of Tamil Nadu
				244/10 Pt,	Govt	Dry	350	Government of Tamil Nadu
				244/11 Pt,	Govt	Dry	2200	Government of Tamil Nadu
				244/12 Pt,	Govt	Dry	900	Government of Tamil Nadu
				244/14 Pt,	Govt	Dry	700	Government of Tamil Nadu
				247/1 Pt,	Private	Dry	1350	P.Seethalakshmi.
				247/2 Pt,	Private	Dry	2000	V.Periyammai.
				249/3 Pt,	Private	Dry	1200	A.Arunachalam.
				249/4 Pt,	Private	Dry	1800	A.Arunachalam.
				249/5A1 Pt,	Private	Dry	1750	A.Arunachalam.
				249/5A4	Private	Dry	200	A.Arunachalam.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				249/6 Pt.	Private	Dry	1450	A. Arunachalam.
				257/5 Pt.	Private	Dry	1950	A. Arunachalam.
				257/6 Pt.	Private	Dry	1750	A. Arunachalam.
				259/2 Pt.	Private	Dry	1450	A. Valliappan Chettiar.
				259/26 Pt.	Private	Dry	200	S. Renuka.
				259/27 Pt.	Private	Dry	144	R. Kalimuthu.
				259/28 Pt.	Private	Dry	144	V. Ramasamy.
				259/52 Pt.	Private	Dry	2350	Karuppan Chettiar.
				260/2 Pt.	Private	Dry	2600	P. Karuppan Chettiar.
				262/1 Pt.	Private	Dry	1800	RM. Meyyathal.
				262/5 Pt.	Private	Dry	1600	RM. Meyyathal.
				263/1 Pt.	Private	Dry	1600	R. Balasubramanian.
				264/1 Pt.	Private	Dry	1600	V. Ramachandran.
				264/2 Pt.	Private	Dry	1600	V. Ramachandran.
				264/3 Pt.	Private	Dry	1100	V. Ramachandran.
				264/4A Pt.	Private	Dry	950	S. Ponnaiah.
				264/5A1 Pt.	Private	Dry	550	P. Ponnalagu.
				264/5A2 Pt.	Private	Dry	550	M. Arunachalam-1, AR. Mahalakshmi-2.
				264/6A1 Pt.	Private	Dry	550	V. Chandan Pillai.
				264/6A2 Pt.	Private	Dry	550	M. Arunachalam-1, AR. Mahalakshmi-2.
				264/6A3 Pt.	Private	Dry	700	S. Meenal-1, S. Subramaniyan-2.
				264/6B	Private	Dry	200	S. Meenal-1, S. Subramaniyan-2.
				264/6C Pt.	Private	Dry	40	S. Selvambal.
				264/7 Pt.	Private	Dry	240	R. Sekar.
				265/1A Pt.	Private	Dry	540	P. Seethalakshmi.
				265/4 Pt.	Private	Dry	1500	S. Devaki.
				265/5A Pt.	Private	Dry	1200	K. Sukumari.
				265/5 B Pt.	Private	Dry	750	S. Devaki.
				266/2 Pt.	Private	Dry	2000	V. Periyammai.
				266/3A Pt.	Private	Dry	450	R. Thamizharasi.
				266/6A	Private	Dry	80	M. Sakkarai Bava.
				266/7A1A Pt.	Private	Dry	1400	R. Thamizharasi.
				266/7A3 Pt.	Private	Dry	230	S. Sornaprakash.
				276/1 Pt.	Private	Dry	4150	S. Durai.
				276/2 Pt.	Private	Dry	2200	S. Durai.
				279 Pt.	Private	Dry	11800	P. Karuppan Chettiar.
				282/1 Pt.	Private	Dry	3350	A. Valliappa Chettiar.
				282/2 Pt.	Private	Dry	700	G. Thangam.
				282/3 Pt.	Private	Dry	93	A. Valliappan Chettiar.
				282/4 Pt.	Private	Dry	2750	G. Thangam.
				286/1A Pt.	Private	Dry	150	R. Savariammal.
				286/1B1C Pt.	Private	Dry	150	M. Thamizha.
				286/2A Pt.	Private	Dry	800	A. Arulraj-1, A. Antony-2.
				286/2B1 Pt.	Private	Dry	850	S. Amalorbavamary.
				286/2B2 Pt.	Private	Dry	400	G. Thangam.
				286/2B3 Pt.	Private	Dry	1100	S. Amalorbavamary.
				286/3 Pt.	Private	Dry	450	A. Ignecias Joseph.
				286/6 Pt.	Private	Dry	150	A. Vijay Amirtharaj.
				286/7 Pt.	Private	Dry	150	I. Sakaya Panneerselvam.
				286/8 Pt.	Private	Dry	150	I. Francis Xavier.
				286/11 Pt.	Private	Dry	150	M. Arockiam.
				286/12 Pt.	Private	Dry	150	M. Antony Arulmani.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				286/15 Pt.	Private	Dry	170	M.Rajathi.
				290 Pt.	Private	Dry	100	S.Bagavathi.
				293/30 Pt.	Private	Dry	500	A.Thiraviam-1, S.Innasi-2, A.Rayappan-3, A.Innasi-4, M.Raju-5, S.Rayappan-6, S.Sebastian-7, S.Rayappan-8.
				293/31 Pt.	Private	Dry	175	S.Rayappan
				293/32 Pt.	Private	Dry	175	M.R.S.Michael.
				293/33 Pt.	Private	Dry	270	S.Thaineesmary.
				293/34 Pt.	Private	Dry	260	N.Venkatachalam.
				293/35 Pt.	Private	Dry	300	N.Venkatachalam.
				293/36A1 Pt.	Private	Dry	170	A.Jeyalakshmi.
				293/37A1 Pt.	Private	Dry	130	Unknown Name
				293/37"I" Pt.	Private	Dry	70	A.Meenal.
				293/37A9 Pt.	Private	Dry	70	S.Rajeswari.
				293/37J Pt.	Private	Dry	70	M.Umayal muthu.
				293/37A8 Pt.	Private	Dry	160	A.Jeyalakshmi.
				294/2 Pt.	Govt	Dry	1650	Government of Tamil Nadu
				297/1 Pt.	Private	Dry	2400	A.Solaimalai.
				297/2 Pt.	Private	Dry	4000	M.Rajamani.
				301/4A1A Pt.	Private	Dry	9550	S.Sudalaimani Nadar.
				301/4B Pt.	Private	Dry	280	K.Kalarani.
				301/4A2 Pt.	Private	Dry	600	A.Chockalingam Arunachalam.
				301/16A1 Pt.	Private	Dry	1400	A.Vellakkannu.
				301/16A4 Pt.	Private	Dry	140	J.Gnanasoundari.
				301/16C Pt.	Private	Dry	380	C.Senthilnathan.
				301/18A Pt.	Private	Dry	2600	M.Razak.
				301/18B Pt.	Private	Dry	250	K.Pathavial Beevi.
				301/18C Pt.	Private	Dry	180	M.Shanthi.
				302/1 Pt.	Private	Dry	3100	N.Indira.
				302/2 Pt.	Private	Dry	2500	A.Arockianathan-1, P.Paranjothi-2.
				303/1 Pt.	Private	Dry	850	A.Jeyalakshmi.
				303/2A1 Pt.	Private	Dry	750	M.Venkatachalam.
				303/3A1 Pt.	Private	Dry	700	D.Selvaraj.
				303/5A1 Pt.	Private	Dry	200	M.Velmurugan.
				303/5A2 Pt.	Private	Dry	150	M.Sabharathinam.
				303/5A7 Pt.	Private	Dry	150	M.Chockalingam.
				306/1A Pt.	Private	Dry	19	S.Vedhanayagam.
				306/1B Pt.	Private	Dry	190	S.Sivaraj.
				337/1 Pt.	Govt	Dry	1640	Government of Tamil Nadu
				337/3A1 Pt.	Private	Dry	450	C.Bagavathi Ammal.
				337/3A2 Pt.	Private	Dry	450	G.Padma.
				337/3B,	Private	Dry	450	Unknown Name
				337/4B Pt.	Private	Dry	56	M.Thangavel.
				337/4C Pt.	Private	Dry	510	S.Parvathi.
				337/4A1 Pt.	Private	Dry	750	C.Bagavathi Ammal.
				338/1 Pt.	Private	Dry	2856	S.Bagavathi.
				338/3 Pt.	Private	Dry	1800	A.Solamalai.
				339 Pt.	Govt	Poramboke	700	Government of Tamil Nadu
				368/3A1A Pt.	Private	Dry	250	M.Ramanathan.
				368/3B1A Pt.	Private	Dry	300	S.Abdul Rahman.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				368/4A Pt,	Private	Dry	800	S.Abdul Rahman.
				368/5 Pt,	Private	Dry	1050	G.Michael.
				369/1 Pt,	Govt	Dry	94	Government of Tamil Nadu
				369/2 Pt,	Private	Dry	4600	L.Amalraj-1, Daisy Amalraj-2.
				378 Pt,	Govt	Dry	600	Government of Tamil Nadu
				382/1A Pt,	Private	Dry	3200	V.Selvarani.
				383 Pt,	Govt	Poramboke	700	Government of Tamil Nadu
				409/6 Pt,	Govt	Poramboke	1300	Government of Tamil Nadu
				409/7 Pt,	Govt	Poramboke	50	Government of Tamil Nadu
				410/1 Pt,	Govt	Dry	300	Government of Tamil Nadu
				410/2 Pt,	Govt	Dry	300	Government of Tamil Nadu
				410/3 Pt,	Govt	Dry	950	Government of Tamil Nadu
				410/4 Pt,	Govt	Dry	350	Government of Tamil Nadu
				410/5 Pt,	Govt	Dry	600	Government of Tamil Nadu
				410/7 Pt,	Govt	Dry	300	Government of Tamil Nadu
				410/8 Pt,	Govt	Dry	300	Government of Tamil Nadu
				410/9 Pt,	Govt	Dry	300	Government of Tamil Nadu
				410/10 Pt,	Govt	Dry	300	Government of Tamil Nadu
				410/11 Pt,	Govt	Dry	350	Government of Tamil Nadu
				410/12 Pt,	Govt	Dry	350	Government of Tamil Nadu
				414/1 Pt,	Govt	Dry	400	Government of Tamil Nadu
				414/2 Pt,	Govt	Dry	1000	Government of Tamil Nadu
				414/3 Pt,	Govt	Dry	900	Government of Tamil Nadu
				414/4 Pt,	Govt	Dry	850	Government of Tamil Nadu
				414/6 Pt,	Govt	Dry	1850	Government of Tamil Nadu

[F. No. NHAI-HQ/11013/2010-LA/Notifi/PIU-Karaikudi]

S. S. GULIA, Director